

Series WX1YZ/5



SET~3

रोल नं. Roll No. प्रश्न-पत्र कोड

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें ।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.

गणित (मानक) **MATHEMATICS (STANDARD)**

निर्धारित समय: 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 80

 $Time\ allowed: 3\ hours$

Maximum Marks: 80

नोट / NOTE :

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 27 हैं। Please check that this question paper contains 27 printed pages.
- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के (ii) मुख-पृष्ठ पर लिखें ।
 - Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- (iii) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 38 प्रश्न हैं।
 - Please check that this question paper contains 38 questions.
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य (iv) लिखें ।
 - Please write down the serial number of the question in the answer-book before attempting it.
- इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है । प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा । 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे ।
 - 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.





सामान्य निर्देश:

निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख़्ती से पालन कीजिए:

- (i) इस प्रश्न-पत्र में 38 प्रश्न हैं । सभी प्रश्न अनिवार्य हैं ।
- (ii) यह प्रश्न-पत्र **पाँच** खण्डों में विभाजित है **क, ख, ग, घ** एवं **ङ**।
- (iii) **खण्ड क** में प्रश्न संख्या 1 से 18 तक बहुविकल्पीय (MCQ) तथा प्रश्न संख्या 19 एवं 20 अभिकथन एवं तर्क आधारित **एक-एक** अंक के प्रश्न हैं।
- (iv) **खण्ड ख** में प्रश्न संख्या **21** से **25** तक अति लघु-उत्तरीय (VSA) प्रकार के **दो-दो** अंकों के प्रश्न हैं ।
- (v) खण्ड ग में प्रश्न संख्या 26 से 31 तक लघु-उत्तरीय (SA) प्रकार के तीन-तीन अंकों के प्रश्न हैं।
- (vi) खण्ड घ में प्रश्न संख्या 32 से 35 तक दीर्घ-उत्तरीय (LA) प्रकार के **पाँच-पाँच** अंकों के प्रश्न हैं।
- (vii) **खण्ड ङ** में प्रश्न संख्या **36** से **38** तक प्रकरण अध्ययन आधारित **चार-चार** अंकों के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रकरण अध्ययन में आंतरिक विकल्प **दो-दो** अंकों के प्रश्न में दिया गया है।
- (viii) प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, खण्ड ख के 2 प्रश्नों में, खण्ड ग के 2 प्रश्नों में, खण्ड घ के 2 प्रश्नों में तथा खण्ड ङ के 3 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान दिया गया है।
- (ix) जहाँ आवश्यक हो स्वच्छ आकृतियाँ बनाइए । जहाँ आवश्यक हो $\pi = \frac{22}{7}$ लीजिए, यदि अन्यथा न दिया गया हो ।
- (x) कैल्कुलेटर का उपयोग **वर्जित** है।

खण्ड क


इस खण्ड में बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) हैं, जिनमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।

- 1. बिन्दुओं $P\left(-\frac{11}{3}, 5\right)$ और $Q\left(-\frac{2}{3}, 5\right)$ के बीच की दूरी है :
 - (a) 6 इकाई

(b) 4 इकाई

(c) 2 इकाई

- (d) 3 इकाई
- 2. दी गई आकृति में, AB = BC = 10 cm । यदि AC = 7 cm है, तो BP की लम्बाई होगी :



(a) 3.5 cm

(b) 7 cm

(c) 6.5 cm

(d) 5 cm

30/5/3



Page 2



General Instructions:

Read the following instructions carefully and follow them:

- (i) This question paper contains 38 questions. All questions are compulsory.
- (ii) This question paper is divided into five Sections A, B, C, D and E.
- (iii) In **Section A**, Questions no. 1 to 18 are multiple choice questions (MCQs) and questions number 19 and 20 are Assertion-Reason based questions of 1 mark each.
- (iv) In **Section B**, Questions no. **21** to **25** are very short answer (VSA) type questions, carrying **2** marks each.
- (v) In **Section C**, Questions no. **26** to **31** are short answer (SA) type questions, carrying **3** marks each.
- (vi) In **Section D**, Questions no. **32** to **35** are long answer (LA) type questions carrying **5** marks each.
- (vii) In **Section E**, Questions no. **36** to **38** are case study based questions carrying **4** marks each. Internal choice is provided in **2** marks questions in each case-study.
- (viii) There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in 2 questions in Section B, 2 questions in Section C, 2 questions in Section D and 3 questions in Section E.
- (ix) Draw neat diagrams wherever required. Take $\pi = \frac{22}{7}$ wherever required, if not stated.
- (x) Use of calculators is **not** allowed.

SECTION A


This section comprises multiple choice questions (MCQs) of 1 mark each.

- 1. The distance between the points $P\left(-\frac{11}{3}, 5\right)$ and $Q\left(-\frac{2}{3}, 5\right)$ is :
 - (a) 6 units

(b) 4 units

(c) 2 units

- (d) 3 units
- 2. In the given figure, AB = BC = 10 cm. If AC = 7 cm, then the length of BP is:



(a) 3.5 cm

(b) 7 cm

(c) 6.5 cm

(d) 5 cm

30/5/3

Page 3

P.T.O.

- 3 m गहरी और 40 m चौड़ी नदी में पानी 2 km/h की दर से बह रहा है । 2 मिनट में समुद्र 3. में कितना पानी गिर जाएगा ?
 - 800 m^{3} (a)

 4000 m^3 (b)

 8000 m^3 (c)

- 2000 m^3 (d)
- यदि किसी बंटन का माध्य और बहुलक क्रमश: 15 और 18 हों, तो इस बंटन का माध्यक होगा:
 - (a) 17

(b) 15

16 (c)

- (d) 18
- A.P.: 10, 7, 4,, -62 में अंतिम पद से 11वाँ पद है: **5.**
 - (a) 25

16 (b)


-32(c)

- (d)
- 52 ताश के पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी से एक पत्ता यादृच्छया निकाला जाता 6. है। इस निकाले गए पत्ते के बेगम होने की प्रायिकता है:
 - (a)

52

(c)

- (d)
- केन्द्र O वाले एक वृत्त पर PQ एक स्पर्श-रेखा है। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 cm है, तो 7. स्पर्श-रेखा PQ की लंबाई होगी:



 $5\sqrt{3}$ cm (a)

 $\frac{10}{\sqrt{3}} \ cm$ $\frac{5}{\sqrt{3}} \ cm$ (b)

(c) 10 cm (d)

30/5/3





- 3. Water in a river which is 3 m deep and 40 m wide is flowing at the rate of 2 km/h. How much water will fall into the sea in 2 minutes?
 - 800 m^{3} (a)

 4000 m^3 (b)

 8000 m^3 (c)

- 2000 m^3 (d)
- If the mean and the mode of a distribution are 15 and 18 respectively, 4. then the median of the distribution is:
 - (a) 17

(b) 15

16 (c)


- (d) 18
- The 11^{th} term from the end of the A.P.: 10, 7, 4,, -62 is: **5.**
 - 25(a)

(b) 16

-32(c)

- (d) 0
- One card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 playing 6. cards. The probability that the drawn card is a queen, is:
 - (a)
- (b) $\overline{52}$
- (c)

- (d)
- PQ is tangent to a circle centered at O. If the radius of the circle is 5 cm, 7. then the length of the tangent PQ is:



 $5\sqrt{3}$ cm (a)

(b)

10 cm (c)

 $\frac{10}{\sqrt{3}}$ cm $\frac{5}{\sqrt{3}}$ cm (d)



8. निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या, किसी घटना के घटने की प्रायिकता <i>नहीं</i> हो सकती	है ?
8. निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या, किसी घटना के घटने की प्रायिकता <i>नहीं</i> हो सकती	है ?
(a) 0 (b) $\frac{7}{0.01}$	
(c) 0.07 (d) $\frac{0.07}{3}$	
9. यदि $\sec \theta - \tan \theta = \frac{1}{3}$, तो $(\sec \theta + \tan \theta)$ का मान होगा :	
(a) $\frac{4}{3}$ (b) $\frac{2}{3}$	
(c) $\frac{1}{3}$ (d) 3	
10. एक द्विघात समीकरण, जिसके मूल $(3 - \sqrt{2})$ तथा $(3 + \sqrt{2})$ हैं, है :	
(a) $x^2 - 6x + 7 = 0$ (b) $x^2 + 6x + 7 = 0$	
(c) $9x^2 - 2 = 0$ (d) $x^2 - 7 = 0$	
11. यदि किसी सांख्यिकी आँकड़ों, जिसमें n पद हैं, के प्रत्येक पद को 2 से कम कर दिया तो आँकड़ों का माध्य :	जाए,
ता आकड़ा का माध्य : (a) 2 कम हो जाएगा	
(a) ८ कम हा जाएगा (b) अपरिवर्तित रहेगा	

13. समीकरण युग्म x + y = a + b और $ax - by = a^2 - b^2$ का हल है :

(a) x = b, y = a

(c) ठीक दो

(c) 2n कम हो जाएगा

(d) 1 कम हो जाएगा

केवल एक

शून्यक - 3 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है :

(b) x = -a, y = b

अनन्त

(d) अधिक-से-अधिक दो

(c) x = a, y = b

(d) x = a, y = -b

14. एक A.P., जिसका nवाँ पद $a_n = 3n + 7$ द्वारा दिया गया है, का सार्व अंतर होगा :

(a) 7

(a)

(b) 3

(b)

(c) 3n

(d) 1

30/5/3

12.

Page 6



- **8.** Which of the following numbers *cannot* be the probability of happening of an event?
 - (a) (

(b) $\frac{7}{0.01}$

(c) 0·07

- (d) $\frac{0.07}{3}$
- **9.** If $\sec \theta \tan \theta = \frac{1}{3}$, then the value of $(\sec \theta + \tan \theta)$ is:
 - (a) $\frac{4}{3}$

(b) $\frac{2}{3}$

(c) $\frac{1}{3}$

- (d) 3
- **10.** A quadratic equation whose roots are $(3 \sqrt{2})$ and $(3 + \sqrt{2})$ is :
 - (a) $x^2 6x + 7 = 0$

(b) $x^2 + 6x + 7 = 0$

(c) $9x^2 - 2 = 0$

- (d) $x^2 7 = 0$
- 11. If every term of the statistical data consisting of n terms is decreased by 2, then the mean of the data:
 - (a) decreases by 2
 - (b) remains unchanged
 - (c) decreases by 2n
 - (d) decreases by 1
- 12. The number of polynomials having zeroes -3 and 5 is:
 - (a) only one

(b) infinite

(c) exactly two

- (d) at most two
- 13. The solution of the pair of equations x + y = a + b and $ax by = a^2 b^2$ is:
 - (a) x = b, y = a

(b) x = -a, y = b

(c) x = a, y = b

- (d) x = a, y = -b
- 14. The common difference of the A.P. whose n^{th} term is given by $a_n = 3n + 7$, is:
 - $(a) \qquad 7$

(b) 3

(c) 3n

(d) 1


30/5/3



Page 7

P.T.O.

15. दी गई आकृति में, DE || BC. x का मान है :



(a) 6

(b) 12·5

(c) 8

- (d) 10
- **16.** त्रिभुजों ABC और DEF में, $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{FD}$ । निम्नलिखित में से कौन-सा इन दो त्रिभुजों को समरूप बनाएगा ?
 - (a) $\angle A = \angle D$

(b) $\angle B = \angle D$


(c) $\angle B = \angle E$

- (d) $\angle A = \angle F$
- 17. $\left(\frac{2 \tan 30^{\circ}}{1 + \tan^2 30^{\circ}}\right)$ बराबर है :
 - (a) $\sin 60^{\circ}$

(b) $\cos 60^{\circ}$

(c) $\tan 60^{\circ}$

- (d) $\sin 30^{\circ}$
- 18. दी गई आकृति में, केन्द्र O के एक वृत्त पर AB एक स्पर्श-रेखा है । यदि OA = 6 cm और \angle OAB = 30° है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी :



(a) 3 cm

(b) $3\sqrt{3}$ cm

(c) 2 cm

(d) $\sqrt{3}$ cm


30/5/3



Page 8



15. In the given figure, DE \parallel BC. The value of x is :



(a) 6

(b) 12·5

(c) 8

- (d) 10
- 16. In \triangle ABC and \triangle DEF, $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{FD}$. Which of the following makes the two triangles similar?
 - (a) $\angle A = \angle D$

(b) $\angle B = \angle D$


(c) $\angle B = \angle E$

- (d) $\angle A = \angle F$
- 17. $\left(\frac{2\tan 30^{\circ}}{1+\tan^2 30^{\circ}}\right) \text{ is equal to :}$
 - (a) $\sin 60^{\circ}$

(b) $\cos 60^{\circ}$

(c) $\tan 60^{\circ}$

- (d) $\sin 30^{\circ}$
- 18. In the given figure, AB is a tangent to the circle centered at O. If OA = 6 cm and $\angle OAB = 30^{\circ}$, then the radius of the circle is:



(a) 3 cm

(b) $3\sqrt{3}$ cm

(c) 2 cm

(d) $\sqrt{3}$ cm

30/5/3



Page 9

P.T.O.



प्रश्न संख्या 19 और 20 अभिकथन एवं तर्क आधारित प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को तर्क (R) द्वारा अंकित किया गया है। इन प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों (a), (b), (c) और (d) में से चुनकर दीजिए।

- (a) अभिकथन (A) और तर्क (R) दोनों सही हैं और तर्क (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।
- (b) अभिकथन (A) और तर्क (R) दोनों सही हैं, परन्तु तर्क (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या *नहीं* करता है।
- (c) अभिकथन (A) सही है, परन्तु तर्क (R) ग़लत है।
- (d) अभिकथन (A) ग़लत है, परन्तु तर्क (R) सही है।
- 19. अभिकथन (A) : संख्या 5^{n} कभी भी अंक शून्य (0) पर समाप्त नहीं होती है, जहाँ n कोई भी प्राकृत संख्या है ।

- **20.** अभिकथन (A): यदि केन्द्र O(2, 3) वाले एक वृत्त पर बिंदु A(4, 3) और B(x, 5) स्थित हैं, तो x का मान 2 होगा।

खण्ड ख

इस खण्ड में अति लघु-उत्तरीय (VSA) प्रकार के प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 2 अंक हैं।

- 21. 3-अंकीय बड़ी-से-बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जो 18, 24 और 36 से विभाजित होती है।
- 22. (क) यदि $a \cos \theta + b \sin \theta = m$ तथा $a \sin \theta b \cos \theta = n$ है, तो सिद्ध कीजिए कि $a^2 + b^2 = m^2 + n^2$.

अथवा

(ख) सिद्ध कीजिए:

$$\sqrt{\frac{\sec A - 1}{\sec A + 1}} + \sqrt{\frac{\sec A + 1}{\sec A - 1}} = 2 \csc A$$

30/5/3



Questions number 19 and 20 are Assertion and Reason based questions carrying 1 mark each. Two statements are given, one labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R). Select the correct answer to these questions from the codes (a), (b), (c) and (d) as given below.

- (a) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).
- (b) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is *not* the correct explanation of the Assertion (A).
- (c) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.
- (d) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.
- **19.** Assertion (A): The number 5ⁿ cannot end with the digit 0, where n is a natural number.
 - Reason (R): Prime factorisation of 5 has only two factors, 1 and 5.
- **20.** Assertion (A): If the points A(4, 3) and B(x, 5) lie on a circle with centre O(2, 3), then the value of x is 2.
 - Reason (R): Centre of a circle is the mid-point of each chord of the circle.

SECTION B

This section comprises very short answer (VSA) type questions of 2 marks each.

- 21. Find the greatest 3-digit number which is divisible by 18, 24 and 36.
- 22. (a) If $a \cos \theta + b \sin \theta = m$ and $a \sin \theta b \cos \theta = n$, then prove that $a^2 + b^2 = m^2 + n^2$.

OR

(b) Prove that:

$$\sqrt{\frac{\sec A - 1}{\sec A + 1}} + \sqrt{\frac{\sec A + 1}{\sec A - 1}} = 2 \csc A$$

30/5/3

Page 11

P.T.O.

- 23. बिन्दुओं (5, -6) और (-1, -4) को मिलाने वाले रेखाखंड को y-अक्ष जिस अनुपात में विभाजित करता है, उस अनुपात को ज्ञात कीजिए।
- 24. सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श-रेखाएँ समान्तर होती हैं।
- **25.** (क) बिन्दु A(4, -5) और B(4, 5) को मिलाने वाले रेखाखंड को बिन्दु P से इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि AP:AB=2:5 है। बिन्दु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।


अथवा

(ख) बिन्दु P(x, y), बिन्दुओं A(5, 1) तथा B(1, 5) से समदूरस्थ है । सिद्ध कीजिए कि x = y.

खण्ड ग

इस खण्ड में लघु-उत्तरीय (SA) प्रकार के प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 3 अंक हैं।

26. (क) दी गई आकृति में, CD, AB का लंब समद्विभाजक है। EF, CD के लंबवत है। AE, CD को G पर काटती है। सिद्ध कीजिए कि $\frac{CF}{CD} = \frac{FG}{DG}$.



अथवा



- **23.** Find the ratio in which y-axis divides the line segment joining the points (5, -6) and (-1, -4).
- 24. Prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel.
- **25.** (a) The line segment joining the points A(4, -5) and B(4, 5) is divided by the point P such that AP : AB = 2 : 5. Find the coordinates of P.


OR

(b) Point P(x, y) is equidistant from points A(5, 1) and B(1, 5). Prove that x = y.

SECTION C

This section comprises short answer (SA) type questions of 3 marks each.


26. (a) In the given figure, CD is the perpendicular bisector of AB. EF is perpendicular to CD. AE intersects CD at G. Prove that $\frac{CF}{CD} = \frac{FG}{DG}$.



 \mathbf{OR}



(ख) दी गई आकृति में, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। BE, CD को M पर समद्विभाजित करती है और AC को L पर काटती है। सिद्ध कीजिए कि EL = 2BL.



27. एक भिन्न के अंश में से 1 घटा देने पर भिन्न $\frac{1}{3}$ बन जाती है । यह भिन्न $\frac{1}{4}$ बन जाती है जब भिन्न के हर में 8 जोड़ दिया जाता है । भिन्न ज्ञात कीजिए ।

28. सिद्ध कीजिए :

$$\frac{\tan A}{1 + \sec A} - \frac{\tan A}{1 - \sec A} = 2 \csc A$$

29. निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए:


वर्ग अंतराल	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60
बारंबारता	14	22	16	6	5	3	4

30. (क) सिद्ध कीजिए कि $\sqrt{3}$ एक अपरिमेय संख्या है।

अथवा



(b) In the given figure, ABCD is a parallelogram. BE bisects CD at M and intersects AC at L. Prove that EL = 2BL.



- 27. A fraction becomes $\frac{1}{3}$ when 1 is subtracted from the numerator. It becomes $\frac{1}{4}$ when 8 is added to the denominator. Find the fraction.
- **28.** Prove that:

$$\frac{\tan A}{1 + \sec A} - \frac{\tan A}{1 - \sec A} = 2 \csc A$$

29. Find the mean of the following frequency distribution:

Classes	25 – 30	30 – 35	35 – 40	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60
Frequency	14	22	16	6	5	3	4

30. (a) Prove that $\sqrt{3}$ is an irrational number.

 \mathbf{OR}

CS CamScanner



- (ख) तीन अलग-अलग रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमश: प्रत्येक 48 सेकण्ड, 72 सेकण्ड और 108 सेकण्ड के बाद बदल जाती हैं। यदि वे एक साथ सुबह 7 बजे बदलती हैं, तो वे आगे किस समय एक साथ बदलेंगी?
- 31. उस A.P. का सार्व अन्तर ज्ञात कीजिए, जिसका पहला पद 8, अंतिम पद 65 तथा इसके सभी पदों का योगफल 730 है।

खण्ड घ

इस खण्ड में दीर्घ-उत्तरीय (LA) प्रकार के प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 5 अंक हैं।

32. (क) एक रेलगाड़ी एक औसतन गित से 54 km की दूरी तय करती है और बाद में 63 km की दूरी पहली गित से 6 km/h अधिक औसतन गित से तय करती है। यदि रेलगाड़ी पूरी यात्रा 3 घंटों में तय करती है, तो इसकी पहली औसतन गित क्या थी?

अथवा

- (ख) दो पाइप मिलकर एक टैंक को $\frac{15}{8}$ घंटों में भर सकते हैं । अधिक व्यास वाला पाइप, छोटे व्यास वाले पाइप से, 2 घंटे कम में टैंक को भर सकता है । दोनों पाइप अलग-अलग टैंक को कितने समय में भर सकते हैं, ज्ञात कीजिए ।
- 33. 15 m भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूँटे से एक घोड़े को 5 m लंबी रस्सी से बाँध दिया गया है । इस मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, ज्ञात कीजिए । यदि रस्सी की लंबाई बढ़ाकर 10 m कर दी जाए तो घास चर सकने वाले क्षेत्रफल में बढ़ोतरी भी ज्ञात कीजिए । ($\pi = 3.14$ का प्रयोग कीजिए)





- (b) The traffic lights at three different road crossings change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 a.m., at what time will they change together next?
- **31.** Find the common difference of an A.P. whose first term is 8, the last term is 65 and the sum of all its terms is 730.

SECTION D

This section comprises long answer (LA) type questions of 5 marks each.

32. (a) A train travels at a certain average speed for a distance of 54 km and then travels a distance of 63 km at an average speed of 6 km/h more than the first speed. If it takes 3 hours to complete the journey, what was its first average speed?


OR

- (b) Two pipes together can fill a tank in $\frac{15}{8}$ hours. The pipe with larger diameter takes 2 hours less than the pipe with smaller diameter to fill the tank separately. Find the time in which each pipe can fill the tank separately.
- 33. A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 m by means of a 5 m long rope. Find the area of that part of the field in which the horse can graze. Also, find the increase in grazing area if length of rope is increased to 10 m. (Use $\pi = 3.14$)

30/5/3 ~~~~ Page 17 P.T.O.




34. (क) 4 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC की लंबाइयाँ क्रमश: 10 cm और 8 cm हैं । भुजाएँ AB और AC की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए, यदि दिया गया है कि $\Delta \text{ ABC}$ का क्षेत्रफल 90 cm^2 है ।



अथवा


(ख) दो वृत्त हैं जिनके केंद्र O और O' हैं, और त्रिज्याएँ क्रमश: 6 cm और 8 cm हैं। दो बिन्दुओं P और Q पर वे इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि OP और O'P दो वृत्तों की स्पर्श-रेखाएँ हैं। उभयनिष्ठ जीवा PQ की लम्बाई ज्ञात कीजिए।




35. एक 80 m चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने-सामने दो खंभे लगे हुए हैं। एक खंभे की ऊँचाई दूसरे खंभे की ऊँचाई से 20 m अधिक है। दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिन्दु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमश: 60° और 30° हैं। खंभों से बिन्दु की दूरी और प्रत्येक खंभे की ऊँचाई ज्ञात कीजिए। ($\sqrt{3} = 1.73$ का प्रयोग कीजिए)



34. (a) A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segments BD and DC are of lengths 10 cm and 8 cm respectively. Find the lengths of the sides AB and AC, if it is given that area Δ ABC = 90 cm².



(b) Two circles with centres O and O' of radii 6 cm and 8 cm, respectively intersect at two points P and Q such that OP and O'P are tangents to the two circles. Find the length of the common chord PQ.



35. Two pillars are standing on either side of a 80 m wide road. Height of one pillar is 20 m more than the height of the other pillar. From a point on the road between the pillars, the angle of elevation of the higher pillar is 60° , whereas that of the other pillar is 30° . Find the position of the point between the pillars and the height of each pillar. (Use $\sqrt{3} = 1.73$)




खण्ड ङ

इस खण्ड में 3 प्रकरण अध्ययन आधारित प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक के 4 अंक हैं।


प्रकरण अध्ययन - 1


36. एक्वेरियम के एक पूल में, एक डॉल्फिन 20 सेमी प्रति सेकण्ड की गति से यात्रा करते हुए, पानी से बाहर कूदती है । t सेकण्ड के बाद जल स्तर से उसकी ऊँचाई $h=20t-16t^2$ द्वारा दी जाती है ।





उपर्युक्त के आधार पर, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- (i) बहुपद $p(t) = 20t 16t^2$ के शून्यक ज्ञात कीजिए।
- (ii) निम्नलिखित में से कौन-सा ग्राफ बहुपद p(t) को निरूपित करता है ?









30/5/3

~~~

Page 20




#### **SECTION E**

This section comprises 3 case study based questions of 4 marks each.


### Case Study - 1


In a pool at an aquarium, a dolphin jumps out of the water travelling at **36.** 20 cm per second. Its height above water level after t seconds is given by  $h = 20t - 16t^2$ .



Based on the above, answer the following questions:

- Find zeroes of polynomial  $p(t) = 20t 16t^2$ . (i)
- (ii) Which of the following types of graph represents p(t)?





5/4

 $\rightarrow$  time

30/5/3 Page 21 P.T.O.



- (iii) (क)  $t = \frac{3}{2}$  पर h का मान क्या होगा ? परिणाम की व्याख्या कीजिए।
  - 2


#### अथवा

(iii) (ख) दोबारा जल स्तर से टकराने से पहले डॉल्फिन ने कितनी दूरी तय की है ?

#### प्रकरण अध्ययन - 2

37. एक गोल्फ की गेंद लगभग 300 – 500 डिम्पल के साथ गोलाकार होती है, जो खेलने के दौरान उसके वेग को बढ़ाने में मदद करते हैं। गोल्फ की गेंद पारंपरिक रूप से सफेद होती है, लेकिन रंगों में भी उपलब्ध होती है। दी गई आकृति में, एक गोल्फ की गेंद का व्यास 4·2 cm और इसकी सतह पर त्रिज्या 2 mm के 315 डिम्पल (अर्ध-गोलाकार) हैं।





उपर्युक्त के आधार पर, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(i) एक ऐसे डिम्पल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- 1
- (ii) एक डिम्पल बनाने के लिए खोदी गई सामग्री का आयतन ज्ञात कीजिए।
- 1
- (iii) (क) परिवेश के संपर्क में आने वाला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

  अथवा
- 2

(iii) (ख) गोल्फ की गेंद का आयतन ज्ञात कीजिए।

Z



(iii) (a) What would be the value of h at  $t = \frac{3}{2}$ ? Interpret the result.


#### OR

(iii) (b) How much distance has the dolphin covered before hitting the water level again?

#### Case Study - 2

37. A golf ball is spherical with about 300 – 500 dimples that help increase its velocity while in play. Golf balls are traditionally white but available in colours also. In the given figure, a golf ball has diameter 4·2 cm and the surface has 315 dimples (hemi-spherical) of radius 2 mm.





Based on the above, answer the following questions:

- (i) Find the surface area of one such dimple.
- (ii) Find the volume of the material dug out to make one dimple. 1
- (iii) (a) Find the total surface area exposed to the surroundings. 2

#### $\mathbf{OR}$


(iii) (b) Find the volume of the golf ball.


30/5/3  $\sim \sim \sim \sim$  Page 23 *P.T.O.* 



#### प्रकरण अध्ययन - 3

एक मिडिल स्कूल ने क्रिसमस कार्निवल पर निम्नलिखित स्पिनर गेम को फ़ंड-रेज़र के रूप में 38. चलाने का निर्णय लिया।





बैंगनी रंग बनाना : प्रत्येक स्पिनर को एक बार स्पिन कीजिए । नीला और लाल, बैंगनी बनाते हैं। इसलिए, यदि एक स्पिनर लाल (R) और दूसरा नीला (B) दिखाता है, तो आप 'जीतते' हो । ऐसे परिणाम पर 'RB' लिखा जाता है ।

उपर्युक्त के आधार पर, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- गेम के सभी संभव परिणामों की सूची बनाइए। (i)

'बैंगनी रंग बनाने' की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। (ii)


30/5/3


Page 24



## Case Study - 3

**38.** A middle school decided to run the following spinner game as a fund-raiser on Christmas Carnival.





Making Purple: Spin each spinner once. Blue and red make purple. So, if one spinner shows Red (R) and another Blue (B), then you 'win'. One such outcome is written as 'RB'.

Based on the above, answer the following questions:

(i) List all possible outcomes of the game.

1

(ii) Find the probability of 'Making Purple'.



(iii) (क) प्रत्येक जीत के लिए, प्रतिभागी को ₹ 10 मिलते हैं, लेकिन अगर वह हार जाता है, तो उसे स्कूल को ₹ 5 का भुगतान करना होगा । यदि 99 प्रतिभागियों ने गेम खेला हो, तो स्कूल ने कितना फंड एकत्र किया होगा ?

#### अथवा

(iii) (ख) यदि खेल में जीत या हार के लिए ₹ 5 की समान राशि तय की गई है, तो स्कूल ने कितना फंड एकत्र किया होगा ? (प्रतिभागियों की संख्या = 99)





(iii) (a) For each win, a participant gets ₹ 10, but if he/she loses, he/she has to pay ₹ 5 to the school.
 If 99 participants played, calculate how much fund could the

9

#### OR

school have collected.

(iii) (b) If the same amount of ₹ 5 has been decided for winning or losing the game, then how much fund had been collected by school? (Number of participants = 99)




# MARKING SCHEME MATHEMATICS (Subject Code–041)

(PAPER CODE: 30/5/3)

| Q. No. | EXPECTED OUTCOMES/VALUE POINTS                                                                                                                                                                                                                                                                     | Marks |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | SECTION A  Questions no. 1 to 18 are multiple choice questions (MCQs) and questions 19 and 20 are Assertion-Reason based questions of 1 mark experiences.                                                                                                                                          |       |
| 1.     | The distance between the points $P\left(-\frac{11}{3},5\right)$ and $Q\left(-\frac{2}{3},5\right)$ (a) 6 units (b) 4 units (c) 2 units (d) 3 units                                                                                                                                                 | ) is: |
| Sol.   | (d) 3 units                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     |
| 2.     | In the given figure, AB = BC = 10 cm. If AC = 7 cm, then the length is : $\begin{array}{c} B \\ \hline P \\ \hline A \\ \hline R \\ \hline C \\ \hline \\ (a)  3.5 \text{ cm} \\ (c)  6.5 \text{ cm} \\ \end{array} \qquad \begin{array}{c} (b)  7 \text{ cm} \\ (d)  5 \text{ cm} \\ \end{array}$ | of BP |
| Sol.   | (c) 6·5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1     |

| 3.   | Water in a river which is 3 m deep and 40 m wide is flowing at the rate of 2 km/h. How much water will fall into the sea in 2 minutes? |                                    |               |                                                                         | ate of   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
|      | (a) 800 m <sup>3</sup>                                                                                                                 |                                    | (b)           | $4000 \text{ m}^3$                                                      |          |
|      | (c) 8000 m                                                                                                                             | 13                                 | (d)           | 2000 m <sup>3</sup>                                                     |          |
| Sol. | (c) 8000 m <sup>3</sup>                                                                                                                |                                    |               |                                                                         | 1        |
| 4.   |                                                                                                                                        | and the mode of                    |               | ion are 15 and 18 respe                                                 | ctively, |
|      | (a) 17                                                                                                                                 |                                    | (b)           | 15                                                                      |          |
|      | (c) 16                                                                                                                                 |                                    | (d)           | 18                                                                      |          |
| Sol. | (c) 16                                                                                                                                 |                                    |               |                                                                         | 1        |
| 5.   | The 11 <sup>th</sup> term                                                                                                              | n from the end of                  | the A.P. : 10 | , 7, 4,, – 62 is:                                                       |          |
|      | (a) 25                                                                                                                                 |                                    | (b)           | 16                                                                      |          |
|      | (c) -32                                                                                                                                |                                    | (d)           | 0                                                                       |          |
| Sol. | (c) – 32                                                                                                                               |                                    |               |                                                                         | 1        |
| 6.   |                                                                                                                                        | drawn at randor obability that the |               | ell shuffled pack of 52 l is a queen, is: $\frac{4}{52}$ $\frac{1}{26}$ | playing  |
| Sol. | (b) $\frac{4}{52}$                                                                                                                     |                                    |               |                                                                         | 1        |

| 7. | PQ is tangent to a circle centered at O. If the radius of the circle is 5 cm, |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|
|    | then the length of the tangent PQ is:                                         |



 $5\sqrt{3}$  cm (a)

 $\frac{10}{\sqrt{3}} \text{ cm}$   $\frac{5}{\sqrt{3}} \text{ cm}$ (b)

10 cm (c)

(d)

Sol. (a) 
$$5\sqrt{3}$$
 cm

- 8. Which of the following numbers cannot be the probability of happening of an event?
  - (a)

(b)

(c) 0.07 (d)

Sol. (b) 
$$\frac{7}{0.01}$$

- 9. If  $\sec \theta - \tan \theta = \frac{1}{3}$ , then the value of  $(\sec \theta + \tan \theta)$  is:
  - (a)

(b)

(c)

3 (d)

(d) 3 Sol.

**CS** CamScanner

| 10.  | A quadratic equation whose roots are $(3-\sqrt{2})$ and $(3+\sqrt{2})$ is :<br>(a) $x^2-6x+7=0$ (b) $x^2+6x+7=0$<br>(c) $9x^2-2=0$ (d) $x^2-7=0$                                              |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Sol. | (a) $x^2 - 6x + 7 = 0$                                                                                                                                                                        | 1 |
| 11.  | If every term of the statistical data consisting of n terms is decreased by 2, then the mean of the data:  (a) decreases by 2  (b) remains unchanged  (c) decreases by 2n  (d) decreases by 1 |   |
| Sol. | (a) decreases by 2                                                                                                                                                                            | 1 |
| 12.  | The number of polynomials having zeroes -3 and 5 is:  (a) only one (b) infinite  (c) exactly two (d) at most two                                                                              |   |
| Sol. | (b) Infinite                                                                                                                                                                                  | 1 |
| 13.  | The solution of the pair of equations $x + y = a + b$ and $ax - by = a^2 - b^2$ is:  (a) $x = b, y = a$ (b) $x = -a, y = b$ (c) $x = a, y = b$ (d) $x = a, y = -b$                            |   |
| Sol. | (c) $\mathbf{x} = \mathbf{a}, \mathbf{y} = \mathbf{b}$                                                                                                                                        | 1 |



| 14.  | The common difference of the A.P. whose $n^{th}$ term is given by $a_n = 3n + 7$ ,                             |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|      | is:                                                                                                            |   |
|      | (a) 7<br>(b) 3<br>(c) 3n<br>(d) 1                                                                              |   |
|      | (c) on (u) 1                                                                                                   |   |
| Sol. | (b) 3                                                                                                          | 1 |
| 15.  | In the given figure, DE $\parallel$ BC. The value of x is :                                                    |   |
|      | 2  cm                                                                                                          |   |
|      | $D \xrightarrow{4 \text{ cm}} E$                                                                               |   |
|      | 3 cm/                                                                                                          |   |
|      |                                                                                                                |   |
|      | B x cm C                                                                                                       |   |
|      | (a) 6 (b) 12·5                                                                                                 |   |
|      | (c) 8 (d) 10                                                                                                   |   |
| Sol. | (d) 10                                                                                                         | 1 |
| 16.  | In $\triangle$ ABC and $\triangle$ DEF, $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{FD}$ . Which of the following makes the two |   |
|      | triangles similar?                                                                                             |   |
|      | (a) $\angle A = \angle D$ (b) $\angle B = \angle D$                                                            |   |
|      | (c) $\angle \mathbf{B} = \angle \mathbf{E}$ (d) $\angle \mathbf{A} = \angle \mathbf{F}$                        |   |
| Sol. | (b) $\angle B = \angle D$                                                                                      | 1 |



| 17.  | $\left(\frac{2\tan 30^{\circ}}{1+\tan^2 30^{\circ}}\right)$ is equal to :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|      | (a) $\sin 60^{\circ}$ (b) $\cos 60^{\circ}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|      | (c) $\tan 60^{\circ}$ (d) $\sin 30^{\circ}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Sol. | (a) sin 60°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 |
| 18.  | In the given figure, AB is a tangent to the circle centered at O. If $OA = 6$ cm and $\angle OAB = 30^{\circ}$ , then the radius of the circle is :<br>(a) $3$ cm (b) $3\sqrt{3}$ cm (c) $2$ cm (d) $\sqrt{3}$ cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Sol. | (a) 3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 |
|      | <ul> <li>Questions number 19 and 20 are Assertion and Reason based questions carrying 1 mark each. Two statements are given, one labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R). Select the correct answer to these questions from the codes (a), (b), (c) and (d) as given below.</li> <li>(a) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).</li> <li>(b) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is not the correct explanation of the Assertion (A).</li> <li>(c) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.</li> <li>(d) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.</li> </ul> |   |



|        |                                                                                                                        | P        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 19.    | Assertion $(A)$ : The number $5^n$ cannot end with the digit 0, where n is a natural number.                           |          |
|        | Reason (R): Prime factorisation of 5 has only two factors, 1 and 5.                                                    |          |
| Sol.   | (c) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false                                                                     | 1        |
| 20.    | Assertion (A): If the points $A(4, 3)$ and $B(x, 5)$ lie on a circle with centre $O(2, 3)$ , then the value of x is 2. |          |
|        | Reason(R): Centre of a circle is the mid-point of each chord of the circle.                                            |          |
| Sol.   | (c) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false                                                                     | 1        |
|        | SECTION B                                                                                                              |          |
|        | This section comprises of very short answer (VSA) type questions of 2 marks each.                                      |          |
| 21.    | Find the greatest 3-digit number which is divisible by 18, 24 and 36.                                                  |          |
| Sol.   | LCM of 18, 24, 36 is 72                                                                                                | 1        |
|        | Required greatest 3-digit number = 936.                                                                                | 1        |
| 22(a). | If $a\cos\theta+b\sin\theta=m$ and $a\sin\theta-b\cos\theta=n$ , then prove that $a^2+b^2=m^2+n^2.$                    |          |
| Sol.   | $m^2 + n^2 = (a \cos \theta + b \sin \theta)^2 + (a \sin \theta - b \cos \theta)^2$                                    | <u>1</u> |
|        | $= a^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta) + b^2(\sin^2\theta + \cos^2\theta)$                                                | 1        |
|        |                                                                                                                        | 2        |

|        | $=\mathbf{a^2}+\mathbf{b^2}$                                                                                                                              | 1<br>2      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        | OR                                                                                                                                                        |             |
| 22(a). | Prove that : $\sqrt{\frac{\sec A - 1}{\sec A + 1}} + \sqrt{\frac{\sec A + 1}{\sec A - 1}} = 2 \csc A$                                                     |             |
| Sol.   | LHS = $\frac{\sqrt{\sec A - 1}}{\sqrt{\sec A + 1}} + \frac{\sqrt{\sec A + 1}}{\sqrt{\sec A - 1}}$ $= \frac{\sec A - 1 + \sec A + 1}{\sqrt{\sec^2 A - 1}}$ | 1<br>1<br>2 |
|        | $= \frac{2 \sec A}{\tan A}$ $= 2 \csc A = RHS$                                                                                                            | 1<br>2      |
| 23.    | Find the ratio in which y-axis divides the line segment joining the points $(5, -6)$ and $(-1, -4)$ .                                                     |             |
| Sol.   | K 	 1 $A(5,-6) 	 P(0,y) 	 B(-1,-4)$                                                                                                                       |             |
|        | Let the point of division be $P(0, y)$ which divides $AB$ in the ratio $K: 1$                                                                             | 1<br>2      |
|        | $0 = \frac{-K+5}{K+1} \implies K = 5$                                                                                                                     | 1<br>1      |
|        | Ratio is 5:1                                                                                                                                              | 2           |



| 24.    | Prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel.                                                               |                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Sol.   | P R R B S                                                                                                                                       | Correct<br>figure<br>1 Mark |
|        | Let PQ and RS be tangents at the end of diameter AB.                                                                                            |                             |
|        | $\angle PAO = \angle RBO = 90^{\circ}$                                                                                                          | 1/2                         |
|        | ⇒ PQ    RS                                                                                                                                      | 1/2                         |
| 25(a). | The line segment joining the points $A(4, -5)$ and $B(4, 5)$ is divided by the point P such that $AP : AB = 2 : 5$ . Find the coordinates of P. |                             |

| Sol.   | $AP : AB = 2 : 5 \Rightarrow AP : PB = 2 : 3$                                                        | 1<br>2      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        | 2 3<br>A(4,-5) P(x,y) B(4,5)                                                                         |             |
|        | $x = \frac{8+12}{5} = 4$ , $y = \frac{10-15}{5} = -1$<br>Point P is $(4, -1)$                        | 1<br>1<br>2 |
|        | OR                                                                                                   |             |
| 25(b). | Point $P(x, y)$ is equidistant from points $A(5, 1)$ and $B(1, 5)$ . Prove that $x = y$ .            |             |
| Sol.   | $PA^{2} = PB^{2} \implies (x - 5)^{2} + (y - 1)^{2} = (x - 1)^{2} + (y - 5)^{2}$<br>$\implies x = y$ | 1           |
|        | SECTION C  This section comprises of short answer (SA) type questions of 3 marks each.               |             |

| 26(a). | In the given figure, CD is the perpendicular bisector of AB. EF is perpendicular to CD. AE intersects CD at G. Prove that $\frac{CF}{CD} = \frac{FG}{DG}$ . |              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Sol.   | $\Delta$ EFG $\sim$ $\Delta$ ADG                                                                                                                            |              |
|        | $\Rightarrow \frac{EF}{AD} = \frac{FG}{DG} $ (i)                                                                                                            | 1            |
|        | $\Delta$ EFC $\sim$ $\Delta$ BDC                                                                                                                            |              |
|        | $\Rightarrow \frac{EF}{BD} = \frac{CF}{CD}$                                                                                                                 | 1            |
|        | $\Rightarrow \frac{EF}{AD} = \frac{CF}{CD} \qquad \{BD = AD\} \_ (ii)$                                                                                      | <b>1 2</b>   |
|        | Using (i) and (ii)                                                                                                                                          | <del>-</del> |
|        | $\frac{FG}{DG} = \frac{CF}{CD}$                                                                                                                             | <b>1 2</b>   |
|        | OR                                                                                                                                                          |              |



| 26(b) | In the given figure, ABCD is a parallelogram. BE bisects CD at M and intersects AC at L. Prove that EL = 2BL.                                             |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       | D M C A B                                                                                                                                                 |        |
| Sol.  | $\Delta$ ALE $\sim$ $\Delta$ CLB                                                                                                                          |        |
|       | $\Rightarrow \frac{AL}{CL} = \frac{EL}{BL} $ (i)                                                                                                          | 1      |
|       | Also $\triangle$ CLM $\sim \triangle$ ALB                                                                                                                 |        |
|       | $\Rightarrow \frac{AL}{CL} = \frac{AB}{CM}$                                                                                                               | 1      |
|       | $\Rightarrow \frac{AL}{CL} = \frac{CD}{CM} \qquad \{AB = CD\} \_ (ii)$                                                                                    | 1<br>2 |
|       | Using (i) and (ii)                                                                                                                                        |        |
|       | $\frac{EL}{BL} = \frac{2CM}{CM}$                                                                                                                          |        |
|       | $\Rightarrow$ EL = 2BL                                                                                                                                    | 1<br>2 |
| 27.   | A fraction becomes $\frac{1}{3}$ when 1 is subtracted from the numerator. It becomes $\frac{1}{4}$ when 8 is added to the denominator. Find the fraction. |        |

14

| Sol. | Let the fraction be $\frac{x}{y}$                                               |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|---|
|      | $\frac{x-1}{y} = \frac{1}{3} \Rightarrow 3x - y = 3$                            | 1 |
|      | $\frac{x}{y+8} = \frac{1}{4} \Longrightarrow 4x - y = 8$                        | 1 |
|      | Solving to get $x = 5$ , $y = 12$                                               |   |
|      | Fraction is $\frac{5}{12}$                                                      | 1 |
| 28.  | Prove that : $\frac{\tan A}{1 + \sec A} - \frac{\tan A}{1 - \sec A} = 2 \csc A$ |   |
| Sol. | LHS = $\frac{\tan A(1 - \sec A) - \tan A(1 + \sec A)}{1 - \sec^2 A}$            | 1 |
|      | $= \frac{-2 \tan A \sec A}{-\tan^2 A}$                                          | 1 |
|      | $=2\times\frac{\cos A}{\sin A}\times\frac{1}{\cos A}$                           |   |
|      | = 2 cosec A = RHS                                                               | 1 |
|      |                                                                                 | 5 |

| 29.    | Find the mean                                                     | n of the fo               | llowing f | requency   | distribut               | ion :        |         |         |                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|-------------------------|--------------|---------|---------|------------------|
|        | Classes                                                           | 25 – 30                   | 30 – 35   | 35 – 40    | 40 – 45                 | 45 – 50      | 50 - 55 | 55 – 60 |                  |
|        | Frequency                                                         | 14                        | 22        | 16         | 6                       | 5            | 3       | 4       |                  |
|        | े                                                                 |                           |           |            |                         |              |         |         |                  |
| Sol.   | C.I.                                                              | X                         | f         | u :        | 5                       | fu           |         |         |                  |
|        | 25 – 30                                                           | 27.5                      | 14        |            | - 3                     | - 42         | 2       |         |                  |
|        | 30 – 35                                                           | 32.5                      | 22        |            | - 2                     | <b>- 4</b> 4 | ŀ       |         |                  |
|        | 35 - 40                                                           | 37.5                      | 16        |            | - 1                     | - 16         | Ó       |         | For              |
|        | 40 - 45                                                           | 42.5                      | 6         |            | 0                       | 0            |         |         | correct<br>table |
|        | 45 - 50                                                           | 47.5                      | 5         |            | 1                       | 5            |         |         | table            |
|        | 50 – 55                                                           | 52.5                      | 3         |            | 2                       | 6            |         |         | 2 Marks          |
|        | 55 - 60                                                           | 57.5                      | 4         |            | 3                       | 12           |         |         |                  |
|        |                                                                   |                           | 70        |            |                         | - 79         | )       |         |                  |
|        | Mean = 42.5                                                       | $-\frac{79}{70} \times 5$ | = 36.86   |            |                         |              |         |         | 1                |
| 30(a). | Prove that                                                        | $\sqrt{3}$ is             | an irra   | tional 1   | number                  |              |         |         |                  |
| Sol.   | Let $\sqrt{3}$ be a r                                             |                           |           |            |                         |              |         |         |                  |
|        | $\therefore \sqrt{3} = \frac{p}{q}, let$                          | p & q be                  | co-prim   | es and q   | <b>≠</b> 0              |              |         |         | 1/2              |
|        | $3q^2 = p^2 \Longrightarrow p^2$                                  | <sup>2</sup> is divisi    | ble by 3  | ⇒ p is d   | ivisible b              | y 3          |         |         |                  |
|        | $\Rightarrow$ p = 3a, wh                                          | iere 'a' is               | some in   | teger      |                         | (i)          |         |         | 1                |
|        | $9a^2 = 3q^2 \Longrightarrow 6$                                   | $q^2 = 3a^2 =$            | ⇒q² is di | visible by | $y 3 \Longrightarrow q$ | is divisibl  | e by 3  |         |                  |
|        | $\Rightarrow$ q = 3b, wh                                          | iere 'b' is               | s some in | teger      |                         | (ii)         |         |         | 1/2              |
|        | (i) and (ii) leads to contradiction as 'p' and 'q' are co-primes. |                           |           |            |                         |              |         |         |                  |
|        | $\therefore \sqrt{3}$ is an irr                                   |                           |           |            |                         | \$575°       |         |         | 1                |

|        | OR                                                                                                                                                                                                                 |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 30(b). | The traffic lights at three different road crossings change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 a.m., at what time will they change together next? |     |
| Sol.   | LCM = 432                                                                                                                                                                                                          | 2   |
|        | i.e. $\frac{432}{60} = 7 \text{ min } 12 \text{ sec.}$                                                                                                                                                             |     |
|        | ⇒ traffic lights will change simultaneously again at 7:7:12 a.m.                                                                                                                                                   | 1   |
| 31.    | Find the common difference of an A.P. whose first term is 8, the last term is 65 and the sum of all its terms is 730.                                                                                              |     |
| Sol.   | a = 8, l = 65                                                                                                                                                                                                      |     |
|        | $730 = \frac{n}{2} [8 + 65]$                                                                                                                                                                                       | 1/2 |
|        | $n=\frac{730\times2}{73}=20$                                                                                                                                                                                       | 1   |
|        | $\therefore l = a + 19 d \Longrightarrow 65 = 18 + 19 d$                                                                                                                                                           | 1   |
|        | $\Rightarrow$ d = 3                                                                                                                                                                                                | 1/2 |
|        | SECTION D                                                                                                                                                                                                          |     |
|        | This section comprises of long answer (LA) type questions of 5 marks each.                                                                                                                                         | 5   |



| 32(a). | A train travels at a certain average speed for a distance of 54 km and then travels a distance of 63 km at an average speed of 6 km/h more than the first speed. If it takes 3 hours to complete the journey, what was its first average speed? |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Sol.   | Let first average speed of the train be x km/hr. $\frac{54}{x} + \frac{63}{x+6} = 3$ $\Rightarrow 54x + 324 + 63x = 3x^2 + 18x$                                                                                                                 | 2 |
|        | $\Rightarrow 3x^{2} + 63x = 3x^{2} + 18x$ $\Rightarrow 3x^{2} - 99x - 324 = 0 \text{ or } x^{2} - 33x - 108 = 0$ $\Rightarrow (x - 36)(x + 3) = 0$                                                                                              | 2 |
|        | $\Rightarrow$ x = 36, -3 (rejected)<br>Therefore, first average speed of the train was 36 km/hr.                                                                                                                                                | 1 |
|        | OR                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 32(b). | Two pipes together can fill a tank in $\frac{15}{8}$ hours. The pipe with larger diameter takes 2 hours less than the pipe with smaller diameter to fill the tank separately. Find the time in which each pipe can fill the tank separately.    |   |
| Sol.   | Let the time taken by smaller diameter tap be $x$ hrs.<br>Time taken by larger diameter tap is $(x-2)$ hrs.                                                                                                                                     |   |

| $\Rightarrow 15(2x - 2) = 8x(x - 2)$ $\Rightarrow 8x^2 - 46x + 30 = 0$                                                                                                                                                                                                                    | 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| $\Rightarrow 8x^2 - 46x + 30 = 0$                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 |
| $\Rightarrow 4x^2 - 23x + 15 = 0$                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| $\Rightarrow (4x-3)(x-5)=0$                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| $\Rightarrow x = \frac{3}{4}, x = 5$                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 |
| $x \neq \frac{3}{4} \text{ as } x - 2 < 0$                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Smaller diameter tap fills in 5 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Larger diameter tap fills in 3 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 |
| A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 m by means of a 5 m long rope. Find the area of that part of the field in which the horse can graze. Also, find the increase in grazing area if length of rope is increased to 10 m. (Use $\pi = 3.14$ ) |   |
| Sol. Area of that part of the field in which the horse can graze by means of a 5 m long rope $=\frac{1}{4} \times 3.14 \times (5)^2$                                                                                                                                                      | 1 |
| $= 19.625 m^2$                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 |
| Area of that part of the field in which the horse can graze by means of a 10 m long rope = $\frac{1}{4} \times 3.14 \times (10)^2$                                                                                                                                                        | 1 |
| $= 78.5 m^2$                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 |

|        | Increase in grazing area = $78.5 m^2 - 19.625 m^2 = 58.875 m^2$                                                                                                                                                                                       | 1              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 34(a). | A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segments BD and DC are of lengths 10 cm and 8 cm respectively. Find the lengths of the sides AB and AC, if it is given that area $\triangle$ ABC = 90 cm <sup>2</sup> . |                |
| Sol.   | Join OA, OB, OC and draw OE $\perp$ AC and OF $\perp$ AB.                                                                                                                                                                                             | 1 1 2          |
|        | BF = 10 cm, CE = 8 cm, Let AF = AE = x  ar Δ ABC = ar Δ BOC + ar Δ COA + ar Δ AOB                                                                                                                                                                     | $1\frac{1}{2}$ |

|        | $90 = \frac{1}{2} \cdot 4 (BC + CA + AB)$                                                                                                                                                            |        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|        | 90 = 2(18 + 8 + x + 10 + x)                                                                                                                                                                          | 1      |
|        | 90 = 4(18 + x)                                                                                                                                                                                       |        |
|        | $\mathbf{x} = 4.5$                                                                                                                                                                                   |        |
|        | AB = 14.5 cm and AC = 12.5 cm                                                                                                                                                                        | 1      |
|        | OR                                                                                                                                                                                                   |        |
| 34(b). | Two circles with centres O and O' of radii 6 cm and 8 cm, respectively intersect at two points P and Q such that OP and O'P are tangents to the two circles. Find the length of the common chord PQ. |        |
| Sol.   | $OO' = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10 \text{ cm}$ { $OP \perp O'P$ }                                                                                                                                          | 1<br>2 |
|        | Let $OA = x$ , $O'A = 10 - x$                                                                                                                                                                        |        |
|        | $AP^2 = 36 - x^2$                                                                                                                                                                                    | 1<br>2 |

| Therefore $36 - x^2 = 64 - (10 - x)^2$ $\Rightarrow 36 - x^2 = 64 - 100 - x^2 + 20 x$ $\Rightarrow x = 3 \cdot 6$ In $\triangle$ PAO, $AP^2 = 36 - (3 \cdot 6)^2 = 23 \cdot 04$ $\Rightarrow AP = 4 \cdot 8$ Length PQ = 2 x AP = 9 \cdot 6 cm  2  35. Two pillars are standing on either side of a 80 m wide road. Height of one pillar is 20 m more than the height of the other pillar. From a point on the road between the pillars, the angle of elevation of the higher pillar is $60^\circ$ , whereas that of the other pillar is $30^\circ$ . Find the position of the point between the pillars and the height of each pillar. (Use $\sqrt{3} = 1.73$ )  Sol. | i i  |                                                                                                                                                                                                                                          | 1                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| $\Rightarrow 36 - x^2 = 64 - 100 - x^2 + 20 x$ $\Rightarrow x = 3 \cdot 6$ $In \triangle PAO, AP^2 = 36 - (3 \cdot 6)^2 = 23 \cdot 04$ $\Rightarrow AP = 4 \cdot 8$ $Length PQ = 2 x AP = 9 \cdot 6 cm$ $1$ 35. Two pillars are standing on either side of a 80 m wide road. Height of one pillar is 20 m more than the height of the other pillar. From a point on the road between the pillars, the angle of elevation of the higher pillar is 60°, whereas that of the other pillar is 30°. Find the position of the point between the pillars and the height of each pillar. (Use $\sqrt{3} = 1.73$ )  Sol.  Corr                                                  |      | Also $AP^2 = 64 - (10 - x)^2$                                                                                                                                                                                                            | 2                      |
| $\Rightarrow x = 3.6$ In ∆ PAO, AP <sup>2</sup> = 36 - (3.6) <sup>2</sup> = 23.04 $\Rightarrow AP = 4.8$ Length PQ = 2 x AP = 9.6 cm  235.  Two pillars are standing on either side of a 80 m wide road. Height of one pillar is 20 m more than the height of the other pillar. From a point on the road between the pillars, the angle of elevation of the higher pillar is 60°, whereas that of the other pillar is 30°. Find the position of the point between the pillars and the height of each pillar. (Use $\sqrt{3} = 1.73$ )  Sol.  Corr                                                                                                                      |      | Therefore $36 - x^2 = 64 - (10 - x)^2$                                                                                                                                                                                                   |                        |
| In $\triangle$ PAO, $\triangle$ P = 36 - (3·6) <sup>2</sup> = 23·04 $\Rightarrow$ AP = 4·8  Length PQ = 2 x AP = 9·6 cm  25.  Two pillars are standing on either side of a 80 m wide road. Height of one pillar is 20 m more than the height of the other pillar. From a point on the road between the pillars, the angle of elevation of the higher pillar is 60°, whereas that of the other pillar is 30°. Find the position of the point between the pillars and the height of each pillar. (Use $\sqrt{3}$ = 1·73)  Sol.                                                                                                                                           |      | $\Rightarrow 36 - x^2 = 64 - 100 - x^2 + 20 x$                                                                                                                                                                                           |                        |
| Description of the point between the pillars and the height of each pillar. (Use √3 = 1.73)  1 1 2 2 2 2 2 3 AP = 9.6 cm  1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | $\Rightarrow x = 3.6$                                                                                                                                                                                                                    | 2                      |
| AP = 4·8  Length PQ = 2 x AP = 9·6 cm  1 2  35. Two pillars are standing on either side of a 80 m wide road. Height of one pillar is 20 m more than the height of the other pillar. From a point on the road between the pillars, the angle of elevation of the higher pillar is 60°, whereas that of the other pillar is 30°. Find the position of the point between the pillars and the height of each pillar. (Use √3 = 1·73)  Sol.                                                                                                                                                                                                                                 |      | In $\triangle$ PAO, $AP^2 = 36 - (3.6)^2 = 23.04$                                                                                                                                                                                        |                        |
| Two pillars are standing on either side of a 80 m wide road. Height of one pillar is 20 m more than the height of the other pillar. From a point on the road between the pillars, the angle of elevation of the higher pillar is 60°, whereas that of the other pillar is 30°. Find the position of the point between the pillars and the height of each pillar. (Use √3 = 1·73)  Sol.  Corr                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | $\Rightarrow AP = 4.8$                                                                                                                                                                                                                   | 1                      |
| pillar is 20 m more than the height of the other pillar. From a point on the road between the pillars, the angle of elevation of the higher pillar is $60^{\circ}$ , whereas that of the other pillar is $30^{\circ}$ . Find the position of the point between the pillars and the height of each pillar. (Use $\sqrt{3} = 1.73$ )  Sol.  Sol.  Correction of the higher pillar is $30^{\circ}$ . Find the position of the point between the pillars and the height of each pillar. (Use $\sqrt{3} = 1.73$ )                                                                                                                                                           |      | Length PQ = 2 x AP = 9.6 cm                                                                                                                                                                                                              |                        |
| 20 S h h Corr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35.  | pillar is 20 m more than the height of the other pillar. From a point on<br>the road between the pillars, the angle of elevation of the higher pillar is<br>60°, whereas that of the other pillar is 30°. Find the position of the point |                        |
| ■ 1 Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sol. | 20 S h h h h A 80 - x R                                                                                                                                                                                                                  | Correct figure  1 Mark |

| Let PQ and RS be the pillars.                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| tan $60^{\circ} = \sqrt{3} = \frac{h+20}{x} \implies h + 20 = x\sqrt{3}$ (i)               | 1         |
| $\tan 30^{\circ} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{h}{80 - x} \implies h\sqrt{3} = 80 - x$ (ii) | 1         |
| Using (i) and (ii) $x = 28.65$ , $h = 29.56$                                               |           |
| AP = 28.65  m, AR = 51.35  m                                                               | 1/2 + 1/2 |
| PQ = h + 20 = 49.56  m and $RS = 29.56  m$                                                 | 1/2 + 1/2 |
| SECTION E                                                                                  |           |
| This section comprises of 3 case-study based questions of 4 marks each.                    |           |




36.


In a pool at an aquarium, a dolphin jumps out of the water travelling at 20 cm per second. Its height above water level after t seconds is given by  $h = 20t - 16t^2.$ 





Based on the above, answer the following questions:

- (i) Find zeroes of polynomial  $p(t) = 20t 16t^2$ .
- (ii) Which of the following types of graph represents p(t)?









| (iii) | (a) | What would be the value of h at $t = \frac{3}{2}$ ? Interpret the result. |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------|
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------|

OR

(iii) How much distance has the dolphin covered before hitting (b) the water level again?

Sol. (i) 
$$-16t^2$$

(i)  $-16t^2 + 20t = 0 \implies 4t(-4t + 5) = 0$ 

(ii) (a)


(iii)(a) At 
$$t = \frac{3}{2}$$
,  $h = -16 \times \frac{9}{4} + 20 \times \frac{3}{2} = -36 + 30 = -6$ 

It means after  $\frac{3}{2}$  seconds, dolphin has reached 6 cm below water level.

OR

(iii)(b) Speed of dolphin = 20 cm per second.

In one second, distance covered = 20 cm




|      | In $\frac{5}{4}$ seconds, distance covered = 20 x $\frac{5}{4}$ = 25 cm                                                                                                                                                                                                                      | 2 |  |  |  |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|
| 37.  | A golf ball is spherical with about 300 – 500 dimples that help increase its velocity while in play. Golf balls are traditionally white but available in colours also. In the given figure, a golf ball has diameter 4.2 cm and the surface has 315 dimples (hemi-spherical) of radius 2 mm. |   |  |  |  |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |  |  |  |  |
|      | Based on the above, answer the following questions:  (i) Find the surface area of one such dimple.                                                                                                                                                                                           |   |  |  |  |  |
|      | (ii) Find the volume of the material dug out to make one dimple.                                                                                                                                                                                                                             |   |  |  |  |  |
|      | (iii) (a) Find the total surface area exposed to the surroundings.                                                                                                                                                                                                                           |   |  |  |  |  |
|      | OR                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |  |  |  |  |
|      | (iii) (b) Find the volume of the golf ball.                                                                                                                                                                                                                                                  |   |  |  |  |  |
| Sol. | (i) SA = $2\pi r^2 = 2 \times \frac{22}{7} \times 4 = \frac{176}{7} \text{mm}^2 \text{ or } 25.1 \text{ mm}^2$                                                                                                                                                                               | 1 |  |  |  |  |
|      | (ii) Volume of material dug out to make one dimple = $\frac{2}{3} \times \frac{22}{7} \times 8$                                                                                                                                                                                              |   |  |  |  |  |


|                                                                                             | r.<br>Francisco |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| $=\frac{352}{21}$ mm <sup>3</sup> or 16.76 mm <sup>3</sup>                                  | 1               |
|                                                                                             |                 |
| (iii)(a) radius of ball = 21 mm                                                             |                 |
| Total surface area exposed to surroundings                                                  |                 |
|                                                                                             |                 |
| $=4\pi(21)^2-315 \times \pi(2)^2+315 \times 2\pi(2)^2$                                      | 1               |
|                                                                                             |                 |
| $= 4 \times \frac{22}{7} \times 21 \times 21 + \frac{22}{7} \times 315 \times 4$            |                 |
|                                                                                             |                 |
| $=9504~\mathrm{mm}^2$                                                                       | 1               |
| OR                                                                                          |                 |
|                                                                                             |                 |
| (iii) (b) Volume of the golf ball = $\frac{4}{3}\pi(21)^3 - 315 \times \frac{2}{3}\pi(2)^3$ | 1               |
| 3                                                                                           | 1               |
| $= 33528 \text{ mm}^3$                                                                      | 1               |
|                                                                                             |                 |



38.

A middle school decided to run the following spinner game as a fund-raiser on Christmas Carnival.





Making Purple: Spin each spinner once. Blue and red make purple. So, if one spinner shows Red (R) and another Blue (B), then you 'win'. One such outcome is written as 'RB'.

Based on the above, answer the following questions:

- List all possible outcomes of the game.
- (ii) Find the probability of 'Making Purple'.
- (iii) (a) For each win, a participant gets ₹ 10, but if he/she loses, he/she has to pay ₹ 5 to the school.
   If 99 participants played, calculate how much fund could the

OR

school have collected.


(iii) (b) If the same amount of ₹ 5 has been decided for winning or losing the game, then how much fund had been collected by school? (Number of participants = 99)

Sol.

(i) All possible outcomes: RR, RG, RB, GR, GB, GG, YR, YB, YG

1

(ii) Number of favourable outcome (RB) = 1



|                                                               | 126    |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| $P(Making purple) = \frac{1}{9}$                              | 1      |
| (iii)(a) As P(winning) = $\frac{1}{9}$                        |        |
| therefore number of people must win = $\frac{1}{9}$ x 99 = 11 | 1<br>2 |
| ∴ Game lost by 88 persons.                                    | 1<br>2 |
| Funds collected = 5 x 88 – 10 x 11 = ₹ 330                    | 1      |
| OR                                                            |        |
| (iii)(b) Number of participants = 99                          |        |
| P(winning the game) = $\frac{1}{9}$                           |        |
| Number of persons won = 11                                    | 1<br>2 |
| Number of persons lost = 88                                   | 1<br>2 |
| Funds collected = 88 x 5 − 11 x 5 = ₹ 385                     | 1      |

29

